

[This question paper contains 4 printed pages.]

(9)

Your Roll No. 2023...

Sr. No. of Question Paper : 3420

E

Unique Paper Code : 62134402

Name of the Paper : Sanskrit Grammar

Name of the Course : B.A. (PROG.)

Semester : IV

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 75



### Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Unless otherwise required in a question answers should be written either in Sanskrit or in Hindi or in English, but the same medium should be used throughout the paper.
3. Answers **all** questions.

### छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।

P.T.O.

2. अन्यथा आवश्यक न होने पर, इस प्रश्नपत्र का उत्तर संस्कृत या हिन्दी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।
3. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

1. निम्नलिखित में से किन्हीं पांच सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या कीजिए -  
(5×5=25)

Explain with example any **five** sutras from the following :

अदर्शनं लोपः, उच्चैरनुदात्तः, वृद्धिरेचि, आदुगुणः, ष्टुना ष्टु, विसर्जनीयस्य सः, कर्मणि द्वितीया, संबोधने च

2. निम्नलिखित पदों में से किन्हीं पांच पदों की सूत्रोल्लेखपूर्वक रूपसिद्धि कीजिए -  
(5×5=25)

Quoting the relevant sutras, give formation any **five** of the following :

पौ + अकः, तत् + मुरारिः, गण + ईशः, शिवो वन्द्यः, रामः + च, विष्णुस्त्रातः, वायो + ए ।

3. निम्नलिखित में से किन्हीं दो की परिभाषा दीजिए- (5×2=10)

Define any **two** technical terms of the following :

वृद्धि, कर्म, पद, संप्रदान

4. निम्नलिखित में से किन्हीं पांच वाक्यों को शुद्ध कीजिए- (5×1=5)

Correct any **five** sentences from the followings :

- (i) जीवन सत्यात् शोभते ।  
(ii) वृक्षेण पत्रं पतति ।  
(iii) ग्रामस्य आगच्छति ।  
(iv) चोरेण बिभेति ।  
(v) दश फलम् अस्ति ।  
(vi) पुस्तकेन गीता श्रेष्ठा ।  
(vii) पितरं नमः ।  
(viii) अलं कलहस्य ।

3420

4

5. निम्नलिखित में से किन्हीं पांच शब्दों का समास और विग्रह कीजिए -  
(4×2.5=10)

Make any **five** compound and dissolute of compounds from the following words :

इतिहरि, कृष्णं श्रितः, राजपुत्रः, धर्मश्च अधर्मश्च,

हरिस्त्रात, कण्ठे कालः यस्य सः, वाक्तवचम्, वृकभयम्

[This question paper contains 4 printed pages.]

(10)

Your Roll No. 2023..

Sr. No. of Question Paper : 3471

E

Unique Paper Code : 62134402

Name of the Paper : Sanskrit Grammar

Name of the Course : B.A. (PROG.)

Semester : IV

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 75



### Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Unless otherwise required in a question answers should be written either in Sanskrit or in Hindi or in English, but the same medium should be used throughout the paper.
3. Answers **all** questions.

### छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।

P.T.O.

2. अन्यथा आवश्यक न होने पर, इस प्रश्नपत्र का उत्तर संस्कृत या हिन्दी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।
3. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

1. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या कीजिए :  
(5×5=25)

Explain with example any **five** sutras of the following :

हलन्त्यम्, उच्चौरुदात्तः, आदुणः, उरण् रपरः, ष्टुना ष्टुः, विसर्जनीयस्य सः,  
साधकतमं करणम्, षष्ठी शेषे

2. निम्नलिखित पदों में से किन्हीं पाँच पदों की सूत्रोल्लेखपूर्वक रूपसिद्धि कीजिए :  
(5×5=25)

Quoting the relevant sutras, give formation any **five** of the following :

सुध्युपास्यः, नै + अकः, एतत् + मुरारिः, वाक् + ईशः, शिवो वन्द्यः,  
रामस् + च, विष्णुस्त्रातः, दैत्यारिः ।

3. निम्नलिखित में से किन्हीं दो की परिभाषा दीजिए : (5×2=10)

Define any **two** technical terms of the following :

वृद्धि, अधिकरण, पद, अपादान

4. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच वाक्यों को शुद्ध कीजिए : (5×1=5)

Correct any **five** sentences of the following :

(i) रुद्रम् नमः ।

(ii) वृक्षेण फलं पतति ।

(iii) परमेश्वराय वन्दे ।

(iv) सिंहेन बिभेति ।

(v) कटम् आस्ते ।

(vi) कवये कालिदासः श्रेष्ठः ।

(vii) भूते बलिः ।

(viii) अलं विवादस्य ।



5. निम्नलिखित में से किन्हीं पांच शब्दों का समास अथवा समासविग्रह कीजिए - (4×2.5=10)

Make any **five** compound or dissolute of compounds from the following words :

अधिहरि, कृष्ण श्रितः, राजपुरुषः, माता च पिता च, हरित्रातः, पीतम्  
अम्बरं यस्य सः, पाणिपादम्, चोरभयम्